




सत्यमेव जयते
Government of India



Media Scanning & Verification Cell



Media alert from the Media Scanning & Verification Cell, IDSP-NCDC.

| Alert ID | Publication Date | Reporting Date | Place Name | News Source/Publication Language |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------|---|
| 5315 | 08.06.2019 | 10.06.2019 | Hardoi Uttar Pradesh | www.jagran.com/Hindi https://www.jagran.com/uttar-pradesh/hardoi-diarrohia-19295727.html |
| Title: | 4 deaths due to diarrhoea in district Hardoi, Uttar Pradesh | | | |
| Action By CSU, IDSP -NCDC | Information communicated to DSU- Hardoi , SSU-Uttar Pradesh | | | |

संक्रामक बीमारियां जानलेवा बनने लगी हैं। चार दिनों में बुखार और डायरिया से चार मरीज काल के गाल में चले गए। जिला अस्पताल में रोजाना डेढ़ दर्जन मरीज भर्ती हो रहे हैं और डेढ़ सौ से दौ सौ मरीज डाक्टर से परामर्श ले रहे हैं।

भीषण गर्मी के साथ ही अचानक हुई हल्की बारिश के बाद संक्रामक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। संक्रामक बीमारियों से मरीजों की मौत भी होने लगी, लेकिन इसके बावजूद महकमा प्रकोप के फैलने का इंतजार कर रहा है। जिला अस्पताल के ओपीडी में शनिवार को एक हजार से अधिक मरीजों ने पर्चे बनवाए और इसके बाद डाक्टरों से परामर्श लिया। जिसमें डेढ़ सौ से दौ सौ मरीज बुखार, डायरिया, हैजा, पेट दर्द के थे। वहीं डेढ़ दर्जन से अधिक बुखार और डायरिया के मरीजों को भर्ती किया गया। बीते चार दिनों में डायरिया से बेहटा गोकुल थाना क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर निवासी निधि (03) पुत्र रिक्की, बेनीगंज कस्बा निवासी श्रवण (21) की मौत हुई। वहीं बुखार से देहात कोतवाली क्षेत्र के बनियनपुरवा निवासी शिल्पी (25) पत्नी कमलेश और टड़ियावां के कालाआम निवासी आयुष (07) पुत्र मूलचंद्र की मौत हो चुकी है। पिछले वर्ष डायरिया और

💧 Save Water- Save Life, 🌳 Save a tree- Don't print unless it's really necessary!

Disclaimer:- This is a media alert subject to verification.

Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP), National Centre for Disease Control,
Ministry Of Health & Family Welfare, Government of India

22-Sham Nath Marg, Delhi – 110 054

For more information please contact: Media Scanning & Verification Cell: - Phone (011)23946029

Email: - ids-misc@nic.in, ids-ppo@nic.in

Join us on



<http://www.facebook.com/pages/Media-Scanning-Verification-Cell-IDSPNCDC/137297949672921>

twitter

<https://twitter.com/MSVC1>

Page 1



एक कदम स्वच्छता की ओर

बुखार की चपेट में आने से एक सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हुई थी। जिसमें टड़ियावां और संडीला में सबसे अधिक मौतें हुई थीं।

डाक्टर की राय: डाक्टर शेर सिंह ने बताया कि संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए शौचालय का इस्तेमाल करें, खेत में शौच के बाद मल को मिट्टी से ढक दें, मच्छर, मक्खी से दूर रहें, बच्चों को सुअर से दूर रखें, खाना बनाने वाले और परोसने वाले को अच्छी तरह हाथ धोना चाहिए और पीने के पानी को उबालकर ही पीएं।

💧 Save Water- Save Life, 🌳 Save a tree- Don't print unless it's really necessary!

Disclaimer:- This is a media alert subject to verification.

**Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP), National Centre for Disease Control,
Ministry Of Health & Family Welfare, Government of India**

22-Sham Nath Marg, Delhi – 110 054

For more information please contact: Media Scanning & Verification Cell: - Phone (011)23946029

Email: - idsp-msc@nic.in, idsp-npo@nic.in

Join us on



<http://www.facebook.com/pages/Media-Scanning-Verification-Cell-IDSPNCDC/137297949672921>

twitter

<https://twitter.com/MSVC1>

